

**प्रेस नोट दिनांक- 27.09.2021**

**एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 04 शोहदे धरे गये ।**

\*जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

\* डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो/ शक्ति मोबाइल महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, शोहरत गढ़ व मिश्रोलिया में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 04 शोहदे पकड़े गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।

**प्रेस नोट दिनांक- 27.09.2021**

**गांव का झगड़ा गांव में सुलझायें, कोर्ट कचहरी हम क्यू जाएं ॥**

11 वर्षों से चल रहे पानी निकासी के विवाद का सुलह समझौता के आधार पर कराया गया निस्तारण

डा० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “ गांव का झगड़ा गांव में निस्तारण ” के सम्बन्ध मे दिये गये निर्देश के क्रम में एवं श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज ग्राम महादेव गजपुर में प्रथम पक्ष के श्रीमती अमीरुन्निशा पत्नी बाबुल्लाह व द्वितीय पक्ष के किस्मत अली उर्फ कल्लू पुत्र सानउल्लाह के मध्य करीब 11 वर्षों से घर के आंगन का पानी निकलने का करीब 11 वर्षों से विवाद चल रहा था । आज रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर द्वारा व उ०नि० अजय कुमार सिंह यादव व पुलिस टीम के हे०का० हरि प्रसाद शर्मा, का० पप्पू गुप्ता, का० जितेन्द्र यादव ने गांव में दोनों पक्षों के बीच ग्राम प्रधान श्याम सुन्दर पाण्डेय, ग्राम प्रतिनिधि प्रवीण कुमार पाण्डेय व ग्रामवासियों के सहयोग से पंचायत कर विवाद को सुलह समझौता के आधार पर समाप्त कराया गया । गांव के गुदाऊ यादव, सर्वजीत यादव तथा तमाम मौजूद ग्रामवासियों ने पुलिस की इस कार्यशैली की प्रशंसा किये

### **प्रेस नोट दिनांक- 27.09.2021**

आज दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 226/2021 धारा 366 भा.द.वि. से सम्बन्धित अपहृता को वाणगंगा पुल के पास से उ0नि0 रमाकान्त यादव मय म0का0 सोनम गुप्ता द्वारा बरामद किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **प्रेस नोट दिनांक- 27.09.2021**

आज दिनांक 27.09.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी ग्राम खरगवार से सम्बन्धित गुमशुदा को रेलवे स्टेशन शोहरतगढ़ के पास से उ0नि0 रामप्रीत प्रसाद मय म0का0 प्रिया शुक्ला द्वारा बरामद किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### **सराहनीय कार्य दिनांक 27.09.2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-27-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 304 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 76 वाहनों का चालान कर ₹ 92,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया

प्रेस नोट दिनांक 27.09.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 196/2021 धारा 324,504,506 भा0द0वि0 से  
सम्बन्धित अभियुक्त को अंदर 24 घण्टे गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

डॉ श्री यश वीर सिंह , पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 26.09.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-196/2021 धारा 324,504 भा0द0वि0 बनाम अशरफ पुत्र कमरुद्दीन निवासी पनेरी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पंजीकृत था, जिसके अनावरण हेतु थाना स्थानीय से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निजी सम्पर्क सूत्र विकसित कर सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अभियुक्त अशरफ पुत्र कमरुद्दीन ग्राम पनेरी थाना मोहाना जनपद सि0नगर को आलमनगर बांध चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।